

प्रेसनोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक- 25.06.2022

फर्जी /छद्म व्यक्ति बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला एवं छद्म व्यक्ति के खाता से पैसा निकालने वाला 01 नफर शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 865/2019 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित फर्जी /छद्म व्यक्ति बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला एवं छद्म व्यक्ति के खाता से पैसा निकालने वाला 01 नफर शातिर वांछित अभियुक्त अवनीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल श्रीवास्तव निवासी मानस बिहार कालोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 25.06.2022 को समय करीब 01.10 बजे छात्रसंघ चौराहे से आगे पैडलेगंज की तरफ से गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध/पूछताछ विवरण:-

पूछताछ में बताया कि हम लोगो का एक गिरोह है जिसमें अनवर नईम ,सैय्यद सिराज अहमद, सुजित कुमार सिंह,सत्येन्द्र पाण्डेय,एजाज अहमद,राजेश गिरि,डा0 नसीम तथा अन्य लोग है। हमलोग मौजा पिपरी में सिद्दीक हसन व शहरआरा की जमीन को दिखाकर फर्जी शहरआरा हसन व फर्जी सिद्दीक हसन को खड़ा कर बैनामा 2019 में करा दिये थे, जबकि सिद्दीक हसन लखनऊ में डाक्टर है तथा शहरआरा हसन की मृत्यु 16.02.1996 में हो चुकी है। हम लोग फर्जी आधार कार्ड व कागजात तैयार कर बंधन बैंक रघवापुर चौरीचौरा गोरखपुर में खाता खोलवाये तथा प्राप्त रुपयों को अन्य खातों में ट्रांसफर /विड्राल किये थे। काम के अनुसार हम सब लोग आपस में मिलकर पैसा बाट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अवनीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल श्रीवास्तव निवासी मानस बिहार कालोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 865/2019 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय:-

छात्रसंघ चौराहे से आगे पैडलेगंज की तरफ से/ दिनांक 25.06.2022 समय करीब 01.10 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री मो0 खुर्शीद खाँ थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर